AMCO INDIA LIMITED Corporate Office: C 53-54, Sector 57, Noida, Uttar Pradesh 201301 Regd. Office: 10795, Shop No. GF-7, Jhandewalan Road, Rexine Bazaar, Nabi Karim, New Delhi-110055 CIN: L74899DL1987PLC029035 PH: 0120 – 4601500 Email: <u>amco.india@ymail.com</u> Website: www.amcoindialimited.com

6th November, 2021

The Manager, Corporate Services Department BSE Limited, 25th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai Maharashtra- 400 001

Ref: Scrip Code: 530133

Sub: Copies of Press release of the approved unaudited Financial Results for the quarter & half year ended on 30th September, 2021.

Dear Sir/Mam,

Please find attached the copies of the unaudited Financial Results of the Company for the quarter & half year ended on 30th September, 2021 as published in the English (Financial Express) and Hindi (Jansatta) editions dated 2nd November, 2021 as approved by the Board of Directors of the Company in their meeting held on 1st November, 2021.

Kindly take the same on record.

Thanking You.

Yours Faithfully, For **Amco India Limited**

Priyanka Beniwal Company Secretary & Compliance Officer

Encl: a/a.

FINANCIAL EXPRESS

Industrial Area, Delhi-110 052 Ph: 011-42952500, Fax: 011-42952555 E-Mail: info@sfclindia.com Website: www.sfclindia.com CIN: L65921DL1989PLC035261

NOTICE

Notice is hereby given that, pursuant to Regulation 29(1)(a) read with Regulation 47(1)(a) of the SEBL (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 (the Listing Regulations) that a meeting of the Board of Directors of the company will be held on Monday, the 8th November, 2021 at 5:30 p.m. at Regd. Office of the company, inter-alia, to consider & approve the unaudited financial results for the Quarter and Half year ended 30th September, 2021 and any other matter with the permission of chair.

It is further notified in pursuance of Regulation 47(2) of the Listing Regulations that the further details may be accessed on Company's website (www.sfclindia.com) and may also be accessed on website of Metropolitan Stock Exchange (www.msei.in)

Pursuant to SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 the "Trading Window" for dealing in shares of the Company has been closed from 1st October, 2021 till 48 hours after the said financial results are declared to the Stock Exchanges.

For Supraneet Finance and Consultants Limited Sd/

Place : Delhi Date : 02.11.2021

(Deepti Jain) **Company Secretary** Date: 03.11.2021

Regd. Office: 10795, Shop No. 7, GF, Jhandewalan Road, Nabi Karim, New Delhi-110 055 Corporate Office: C - 53 54, Sector - 57, Noida - 201301, PH NO. 0120-4601500, FAX 120-4601548 CIN: L74899DL1987PLC029035 Email: amco.india@ymail.com Website: www.amcoindialimited.com EXTRACT OF THE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER, 2021 (Rs. in Lacs, except per share data)

Sr	Particulars	Quarter Ended Half Year Ended				
No.		(Unaudited) Three Months Ended 30/09/2021	(Unaudited) Three months Ended 30/06/2021	Corresponding	(Unaudited) Six Months Ended 30/09/2021	(Unaudited) Corresponding Six Months Ended 30/09/2020
1	Total Income from Operations (Net)	4,295.40	3,977.64	2,227.81	8,273.04	3448.67
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	• 183.87	92.89	51.96	276.76	76.84
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	183.87	92.89	51.96	276.76	76.84
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	132.72	68.74	38.45	201.46	56.86
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	130.35	66.37	39.18	196.72	58.32
6	Equity Share Capital	411.00	411.00	411.00	411.00	411.00
7	Other Equity	2,803.36	2,673.01	2,540.57	2,803.36	2,540.57
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) : Basic & Diluted	3.23	1.67	0.94	4.90	1.38

Note:

- Company at www.amcoindialimited.com

Date : 01.11.2021 Place : Noida, U.P

LL: 011-4914 7524 Mob: +91 99581 54777

AMCO INDIA LIMITED

The above is an extract of the detailed format of quarter and half year ended financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. These financial results were reviewed by the Audit Committee, and were approved by the Board of Directors, in their respective meetings held on 01st November, 2020. The full format of the said Quarterly & Half Yearly Financial Results are available on the website of the Bombay Stock Exchange at www.bseindia.com and on the website of the

The results for previous periods have been adjusted to consider the impact of first time application of Ind AS, wherever applicable. For AMCO INDIA LIMITED

> Sd/-Surender Kumar Gupta **Managing Director** DIN: 00026609 C - 53 54, Sector - 57, Noida - 201301, U.P.

addriv III attached to the Tender form, without which the bid is liable to be rejected. (5) The Interested bidders who required assis submitting bid, training on e-bidding process etc., may avail online training on E-Auction from M/s MSTC Kolkatta and any por: Ms. Lakshmy lyer: Mobile No. 9884061652, E-mail ID of Branch: sbi.04262@sbi.co.in within office hours du the word and confirmed payment of EMD through NEFT/RTGS shall be eligible for participating in the online auction proc (7) Tht below the 10% of reserve price through https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp shail aligitave properties would be conducted exactly on the scheduled date & time as mentioned above by way of inter-se bide amonultiple of amount mentioned under the column "Bid Increase Amount" against the Property. In case bid is placed in the 5 min will automatically get extended for 5 minutes (subject to unlimited extensions of 5 minutes each). The bidder who subject to unlimited extensions of 5 minutes each). The bidder who subject to unlimited extensions of 5 minutes each). the hie auction shall be declared as successful bidder and a communication to that effect will be issued through electronic management of the second se whicl/Socured Creditor. (8) The Earnest Money Deposit (EMD) of the successful bidder shall be retained towards part s construlunded. The Earnest Money Deposit shall not earn any interest. The successful bidder shall deposit 25% of sale pr after some day or not later than next working day, as the case may be, after the acceptance of the offer by the Authorised Offi failing be forfeited in case of forfeiture of the amount deposited by the defaulting bidder, he shall neither have claim on propaguently sold. The Balance 75% of the sale price is payable on or before the 15th day of confirmation of sale of the secu asseing between the Secured Creditor and the e-Auction purchaser not exceeding three months from the date of e Auction The in e-auction from M/s MSTC Kolkatta, https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp prior to date //s MSTC Kolkatta, https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp shall be liable for any netw problechnically well equipped for participating in the e-Auction event. (10) The purchaser shall bear the applicable sta dutie also all the Statutory/ non statutory dues, taxes, rates, assessments, charges, fees etc. owing to anybody. (11) Authod the Authorised Officer has the absolute right to accept or reject any or all offer(s) or adjourn/ postpone/ cancel the auction are advised to go through the detailed terms and conditions of e-auction available on the website of M/s MSTC Kolk: (a) hi.com (c) https://www.eprocure.gov.in before submitting their bids and taking part in e-auction. (13) The publication subjectual be issued after receipt of entire sale consideration and confirmation of sale by secured creditor. The sale certific shalling for change of name in the sale certificate other than the person who submitted the bid / participated in the e-Auction be en not be cancelled/ withdrawn and the bidder shall be bound to buy the property at the final bid price. The failure on the of bite Auction, mentioned therein will result in forfeiture of the amount paid by the defaulting bidder. (16) Decision of Authr shall be final and binding on all the bidders. The Authorised Officer shall be at liberty to cancel the e-Auction proce tend out assigning any reason. The conditional bids may be treated as invalid. Please note that after submission of the bid/s corrententained. The payment of all statutory / non- statutory dues, taxes, rates, assessments, charges, fees etc., owing anybonly. In case of any dispute arises as to the validity of the bid (s), amount of bid, EMD once to the eligibility of the bide authand the decision of the Authonised Officer shall be final in such an eventuality, the Bank shall in its sole discretion be entit to calling date and at such time as may be decided by the Bank. For any kind of dispute, bidders are required to contact concily (17) Special Instructions: Bidding in the last moment should be avoided in the bidders own interest are neither the St Banklapse/failure (Internet failure/power failure etc.). in order to ward-off such contingent situations bidders are requested make supply back-up etc. so that they are able to circumvent such situation & are able to participate in the auction successful AS STATUTORY 15 DAYS SALE NOTICE UNDER THE SARFAESI ACT, 2002

Place: Chandigarh

Dati

WEDNESDAY, NOVEMBER 3, 2021

Authorised Offic



विनाकः 02.11.2021

स्थानः मेरठ

एमको इंडिया लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः 10795, शॉप नं. 7, जीएफ, झंडेवालान रोड, नबी करीम, नई दिल्ली-110055 कॉपॉरेट कार्यालयः सी-53-54, सैक्टर-57, नोएडा-201301, फोन नं 0120-4601500 फैक्स नं 120-4601548 CIN : L74899DL1987PLC029035

amon india@umail.com dause www.amcoindialimited.com

T	विवरण		समाप्त तिमाही			समाप्त छमाही		
स.		(अले खापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(अले खापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)		
		समाप्त तीन माह	समाप्त तीन माह	संगत समाप्त तीन माह	गत समाप्त समाप्त छह संगत सम	संगत समाप्त छह माह		
		30.09.2021	30.06.2021	30.09.2020	30.09.2021	30.09.2020		
1.	परिचालनों से कुल आय (निवल)	4,295.40	3,977.64	2,227.81	8,273.04	3448.67		
2.	अवधि के लिए निवल लाभ / (हानि) (कर, अपवादात्मक और / या अतिविशिष्ट मदों से पूर्व)	183.87	92.89	51.96	276.76	76.84		
3.	कर पूर्व अवधि के लिए निवल लाभ / (हानि) (अपवादात्मक और / या अतिविशिष्ट मदों के बाद)	183.87	92.89	51.96	276.76	76.84		
4.	कर पश्चात अवधि के लिए निवल लाभ / (हानि) (अपवादात्मक और / या अतिविशिष्ट मदों के बाद)	132.72	68.74	38.45	201.46	56.86		
5.	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के लिए लाभ / (हानि) (कर पश्चात) और अन्य व्यापक आय (कर पश्चात) शामिल}	130.35	66.37	39.18	196.72	58.32		
6.	इक्विटी शेयर पूंजी	411.00	411.00	411.00	411.00	411.00		
7.	अन्य इक्विटी	2,803.36	2,673.01	2,540.57	2,803.36	2,540.57		
8.	अर्जन प्रति शेयर (रु. 10 / - प्रत्येक) : मूल एवं तनुकृत	3.23	1.67	0.94	4.90	1.38		

नोट

उपरोक्त सेबी (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटन आवष्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेजों में दाखिल तिमाही एवं छमाही समाप्त वित्तीय क) वर्ष के विस्तृत प्रारूप का सारांश है। 01 नवम्बर, 2021 को आयोजित अपनी संबंधित बैठकों में इन वित्तीय परिणामों की लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई है और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है। कथित तिमाही एवं छमाही वित्तीय परिणामों का पूरा प्रारूप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट और कम्पनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

जहां कही आवष्यक हुआ पिछली अवधि के परिणामों को पहली बार इंड एएस के अनुप्रयोग के प्रभाव पर विचार करने के लिए समायोजित किया गया है। ख)

दिनांक : 01.11.2021 स्थान : नोएडा, यूपी

जनसत्ता, 3 नवंबर, 2021 11

SPARK MINDA **Powered by Passion**

अक्षित समेकित एवं

(र लाख में)

समाप्त वर्ष	प्त अर्द्धवार्षिक				
31 मार्च 2021	21 30 सितम्बर 2020				
अं के क्षिल	अनअं के क्षित	Rici			
2,36,794	83,406	988			
12,469	(864)	,115			
9,353	(1,052)	617			
94	94				
(4,167)	1 m 1222 2 2 2 - 1	A CONTRACTOR OF THE OWNER			
(4,073)	94				

प्राधि

98450

कृते एमको इंडिया लिमिटेड हस्ता/-सुरेन्दर कुमार गुप्ता प्रबंध निदेशक डीआईएन : 00026609 सी-53-54, सैक्टर-57, नोएडा-201301, यू.पी